



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 10--जनवरी 16, 2004 (पौष 20, 1925)

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 10--JANUARY 16, 2004 (PAUSA 20, 1925)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग IV

[PART IV]

गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं

[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies.]

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER

Controller of Publication

have changed the name of minor daughter CHESHTA SHARMA aged about 16 Years and she shall hereafter be known as MANYA SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

N. K. SHARMA

Signature of Guardian

CHANGE OF NAMES

I, N. K. SHARMA Son of Shri B. R. SHARMA, employed as P. A./Chief Engineer/Construction, Northern Railway, Kashmere Gate, Delhi-110006 in the Office of Chief Administrative Office/Construction, Northern Railway, Kashmere Gate, Delhi-110006 residing at 4/16, Railway Colony, Kishanganj, Delhi-110007

I, hitherto known as BEERAN son of Shri MOHAN employed as Assistant Divisional Engineer (Telecom) in the Department of Telecom, Bulandshahar residing at Type IV/4 Awas Vikas Telephone Colony, DM Road, Bulandshahar (UP-203001) have changed my name and shall hereafter be known as BEERAN PRAJAPATI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BEERAN

[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as NIDHI JINDAL daughter of Shri ATUL JINDAL residing at C-5, Plot No. 44, Grand Vasant Kunj, New Delhi-110070 have changed my name and shall hereafter be known as NIDHI A JINDAL daughter of Shri ATUL JINDAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NIDHI JINDAL

[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAMA JINDAL daughter of Sh. V. D. JAIN residing at the C-5, Plot No. 44, Grand Vasant Kunj, New Delhi-110070 have changed my name and shall hereafter be known as RAMAA JINDAL daughter of Shri V. D. JAIN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAMA JINDAL

[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MANAV JINDAL son of Sh. ATUL JINDAL residing at C-5, Plot No. 44, Grand Vasant Kunj, New Delhi-110070 have changed my name and shall hereafter be known as MANAV J JINDAL son of Sh. ATUL JINDAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MANAV JINDAL

[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAGHU BAHADUR s/o Sh. KISHAN BAHADUR employed as "Carpenter" in the IOW, Rail Bhavan, New Delhi, residing at 3-B, 104/4, Kishan Ganj, Delhi-110007 have changed my name and shall hereafter be known as RAGHUBIR KARKI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAGHU BAHADUR

[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as LOVELESH KUMAR son of Sh. RAJ KUMAR GUPTA employed as Senior Accountant in the M/s. Bhagwad Gupta & Co., Chartered Accountants, 1657/35, Naiwala, Karol Bagh, New Delhi-110005 residing at H. No. 548, Gali No. 10, West Kanti Nagar, Delhi-110051 have changed my name and shall hereafter be known as LAVLESH GUPTA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

LOVELESH KUMAR

[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PARAKKUNDIL DAKSHAYANI d/o SHANKARAN KUTTY, Parakkundil House, Katampazhipuram, District Palghat, Kerala, residing at 35-C, A-1 pocket, DDA LIG Mayur Vihar Phase-III Delhi have changed my name and shall hereafter be known as LEELAVATHI after my marriage to UNMAM-THONEY SHIVARAMAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PARAKKUNDIL DAKSHAYANI

[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as KANNAKAYIL SINDHU d/o Maj. K.V. CHANDRAND, Cherukunnu Maddom, Odayammodom, District Kannur, Kerala, residing at 15-B, Block E-15, HIG Flat, Sector-61 NOIDA have changed my name and shall hereafter be known as SINDHU MANOJ after my marriage to MANOJ KUMAR SHIVRAMAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KANNAKAYIL SINDHU

[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as OMVATI d/o of Shri RAM SINGH residing at A-67A, East Uttam Nagar, New Delhi-110035 have changed my name and shall hereafter be known as ANJALI MARATHIA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

OMVATI

[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SAMBHU NATH DE son of Late GANESH CHANDRA DEY employed as Machinist T/No. 20296 in the Shop No. 2, Kanchrapara Rly. Workshop residing at 91 Sree Durga Colony, P. O. : Kanchrapara, Dist. 24-Parganas (N). have changed my name and shall hereafter be known as SAMBHU NATH DEY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SAMBHU NATH DE
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as CH. KRISHNA RAO s/o Late CH. APPALA NAIDU employed as Carpenter, Gr.-II, T. No. 24154, Carriage Shop-24 in the S. E. Rly. Workshop, Kharagpur, residing at Qr. No. : L 69 A1, Unit No. : 13, New Settlement, Kharagpur, Pin : 721 310, (West Bengal) have changed my name and shall hereafter be known as SARAGADAM KRISHNA RAO.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CH. KRISHNA RAO
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as KISTA S/o SHRIPATI employed as Welder, Gr.-I, T. No. : 6105 in the under SSE-6, Welding Shop No. 6, S. E. Rly. Workshop, Kharagpur residing at Vill. : Bankati, Post : Dharanda, P.S. : Kharagpur, Dist. : Paschim Midnapore, have changed my name and shall hereafter be known as KISTA MAHATA. s/o SARI PATI MAHATA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KISTA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SUROJIT KUMAR MOOKHERJEE son of Late BIBHUTI BHUSAN MOOKHERJEE employed as Turner Gr. II, T/No. 20197 in the shop No. 2/Loc./Kanchrapara, Eastern Railway, residing at Nibedita Pally, Madral Road, P.O. Naihati, Dist. North 24-Parganas, State : West Bengal have changed my name and shall hereafter be known as SURAJIT MUKHERJEE.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUROJIT KUMAR MOOKHERJEE
[Signature (in existing old name)]

I, ARVIND KUMAR SHUKLA son of Shri T.N. SHUKLA employed as Deputy Adviser (Forestry), Govt. of India in the Deptt. of Land Resources, Ministry of Rural Development presently residing at A-2446 Netaji Nagar, New Delhi-110023 have changed the name of minor son NIKHIL SHUKLA aged 11 (eleven) years and he shall hereafter be known as SIDDHARTHA SHUKLA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ARVIND KUMAR SHUKLA
[Signature (of Guardian)]

I, ARVIND KUMAR SHUKLA s/o Shri T. N. SHUKLA employed as Deputy Adviser (Forestry), Govt. of India in the Deptt. of Land Resources, Ministry of Rural Development presently residing at A-2446 Netaji Nagar, New Delhi-110023 have changed the name of minor daughter NEHA SHUKLA aged 13 (thirteen) years and she shall hereafter be known as SHARMISTHA SHUKLA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ARVIND KUMAR SHUKLA
(Signature of Guardian)

I, hitherto known as BHAGWAN DAS RAI DAS son of Late JAGESWAR PRASAD employed in Cordite Factory Aruvakada, The Nilgiris in the C.P.W.- 'HS' Residing at 18/2 N Type Q.rs. C.F.A. Estate, The Nilgiris, have changed my name and shall hereafter be known as BHAGWAN DAS VERMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BHAGWAN DAS RAI DAS
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PRAMOD DEVIDAS son of Late YESHWANT RAMNATH DEVIDAS employed as Peon in the National Hydrographics School residing at Mestawada Vasco Da Gama, Goa have changed my name and shall hereafter be known as PRAMOD YESHWANT MORAJKAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRAMOD DEVIDAS
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as CHHOTE LAL SINGH YADAV son of Late SARYU SINGH YADAV employed as Telecom District Manager, Vidisha (M.P.) in the B.S.N.L. (Department of Telecommunication, Govt. of India) residing at Agyaram Colony, Vidisha have changed my name and shall hereafter be known as CHINMAY LAL SINGH YADAV.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHHOTE LAL SINGH YADAV
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as C. R. JAYASEELAN s/o Shri S. CHRIST DOSS employed as TTA in BSNL in the JJR Nagar, RSU Exchange, Selaiyur, Chennai-600073 residing at 3/2, Rhenius Illam, Nadu Street, Ganapathipuram Tambaram East, Chennai-600059 have changed my name and shall hereafter be known as C. RHENIUS JAYASEELAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

C. R. JAYASEELAN
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as BIVA KUMARI daughter of Shri KAMESHWAR PRASAD SINGH employed as Instructor Class 'C' in the Indian Military Academy, Dehradun (UA) residing at (Present address) 176/2, IMA, Dehradun (UA) have changed my name and shall hereafter be known as VIBHA SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BIVA KUMARI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAMESH SWAMY TUPPALI son of Shri SWAMY MAISANNA TUPPALI employed as Master Craft with T. No. QC/SAA-330 in the Ammunition Factory Khadki, Pune-3 residing at 1/1, Type-II,

Ranghills, Pune-411020 have changed my name and shall hereafter be known as RAMESH K SWAMY TUMPALLI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAMEH SWAMY TUPPALI
[Signature (in existing old name)]

सूचना

(धारा 485 के अन्तर्गत)

के सन्दर्भ में :—ए० एम० एफ० बीलिंग इण्डिया प्रा० लि० ।

पंजीकृत कार्यालय :—सी-13, प्रथम तल, कमोनटी सेंटर, सफदरजंग डिवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली-110016 ।

यह सूचित किया जाता है कि ए० एम० एफ० बीलिंग इण्डिया प्राइवेट लि० के सदस्यों ने, कम्पनी की अतिरिक्त आम सभा (ई० जी० एम०) दिनांक 26 दिसम्बर, 2003, शुकवार को स्थित डी एल एफ-पी एच डी सेंटर, पी एच एड हाऊस, खेल गाँव मार्ग, नई दिल्ली-110016, समय 4 पी० एम० में यह प्रस्ताव स्वतः पारित किया गया कि उपरोक्त कम्पनी को बन्द कर दिया जाए ।

यह प्रस्तावित किया जाता है कि धारा 484(I) (बी) कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत उपरोक्त कम्पनी को स्वतः बन्द कर दिया जाए । पुनः प्रस्तावित किया जाता है कि श्री रानती देव गुप्ता, प्रबन्ध निर्देशक को यह अधिकार दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की सूचना आफिसल गजट व दो समाचार पत्रों एक अंग्रेजी व हिन्दी में ज्ञापन द्वारा दें जोकि वह समाचार पत्र कम्पनी के यहां पर पंजीकृत कार्यालय है उस जिले के मान्यता प्राप्त हो । और इस नोटिस के सन्दर्भ में जरूरी कार्यवाही/अवेदन रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी, एन सी टी दिल्ली एवं हरियाणा में करें ।

दिनांक : 26 दिसम्बर, 2003 ।

स्थान : नई दिल्ली ।

कृते ए० एम० एफ० बीलिंग इण्डिया प्रा० लि०
रानती देव गुप्ता,
निर्देशक

फॉर्म नं० 151

(देखें नियम 315)

सदस्यों द्वारा स्वतः विलय

लुकीडेटर की नियुक्ति के संदर्भ में अन्तर्गत धारा 516

1. कम्पनी का नाम ए० एम० एफ० बीलिंग इण्डिया प्रा० लि०
2. व्यवसाय का विवरण बीलिंग एलैबोरेटरी इक्विपमेंट एवं इसके सम्बन्धित सामान एवं बिल्टर्ड्स का सामान का निर्माण
3. पंजीकृत कार्यालय सी-13, प्रथम तल, कमोनटी सेंटर, क्रा. पत्ता सफ़रजंग डिवलपमेंट ऐरिया, नई दिल्ली-110016
4. लुकीडेटर का नाम एवं पत्ता श्री निसार अहमद, सी-88, पर्यावरण नाम एवं पत्ता कम्पलैक्स, नई दिल्ली-110030
5. नियुक्ति की दिनांक दिसम्बर, 26, 2003
6. किन्हीं द्वारा सदस्यगण नियुक्ति किया गया मैं लुकीडेटर की नियुक्ति स्वीकार करता हूँ।

दिनांक : 27, दिसम्बर, 2003

स्थान : नई दिल्ली

हस्ताक्षर
निसार अहमद

उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड, 14/113 सिविल लाइन्स, कानपुर-208001 के बाई-लॉज में संशोधन (उत्तर प्रदेश के राजपत्र में दिनांक 08-11-2003 एवं भारत के राजपत्र में दिनांक 18-10-2003 को सम्यक रूप से पूर्व प्रकाशित)

सेबी सरकार संख्या भाप्रविबो/एस०एम०डी०/एसई/13/2003/10/04 दिनांकित 10 अप्रैल 2003 एवं सेबी निर्देश संख्या भाप्रविबो/एम० आर० डी०/एस० ई०/14855/2003/06/08 दिनांकित 6 अगस्त 2003 के अनुसार माध्यस्थ (अर्बिट्रेशन) अभिलेखों को बनाये रखने/निर्दिष्ट करने से संबंधित नीति की रचना के लिए बाई-लॉज में संशोधन जिसका अनुमोद प्रगसक द्वारा दिनांक 27-06-2003 को एवं सेबी द्वारा पत्र संख्या एम० आर० डी०/डीसीए/यूपीएसई/16933/2003 दिनांक सितम्बर 8, 2003 को किया गया।

एक्सचेंज के बाई-लॉज में वर्तमान बाई-लॉ संख्या 272 के पश्चात् निम्नलिखित नया बाई-लॉ संख्या 272-ए स्थापित किया जाता है।

"272-ए माध्यस्थ (अर्बिट्रेशन) - अभिलेखों (रिकार्डों) को बनाये रखना -

1. माध्यस्थ संघी मूल अधिनियमों की अभिसंधनाओं के साथ हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जायेगा।
2. माध्यस्थ से संबंधित अन्य रिकार्डों की अधिनियम की तारीख से 5 वर्षों के लिए सुरक्षित रखा जायेगा, यदि उस समय तक अधिनियम को अस्त करने संबंधी कोई अपील दाखिल नहीं की जाती है।
3. यदि, कोई अपील दाखिल की जाती है, तो न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय दिये जाने की तारीख से पाँच वर्षों के लिए रिकार्डों को सुरक्षित रखा जायेगा।
4. रिकार्डों को नष्ट करना एक्सचेंज के कार्यपालक निदेशक के लिखित, लिखित आदेश के अधीन होगा।
5. एक्सचेंज एक रजिस्टर बनाये रखेगा, जिसमें नष्ट किये गये रिकार्डों का संक्षिप्त व्यौरा, नष्ट किये जाने की तारीख और रीति के प्रमाण के साथ दिया जायेगा।

वास्ते दि उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज
एसोसिएशन लिमिटेड
के० सी० पाण्डेय, कार्यकारी निदेशक

दी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : डी.एसई हाउस, 3/1, आसफ अली रोड,
नई दिल्ली-110002

दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के संस्था के बहिर्नियमों के खंड 3 में संशोधन के तहत उपखंड 2क जोड़कर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने अपने पत्र संख्या एमआरडी/डीएसए/18754/03 दिनांक 3 अक्टूबर 2003 के माध्यम से विधिवत् अनुमोदित कर दिया है तथा दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड की उपविधि में संशोधन के तहत नई उपविधि की संख्या 61क एवं 235क जोड़कर प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने अपने पत्र संख्या एमआरडी/डीएसए/21128/03 दिनांक 10 नवम्बर 2003 के माध्यम से विधिवत् अनुमोदित कर दिया है।

- (2क) एक्सचेंज के संस्था के बहिर्नियमों का खंड 3 'सहायक कंपनी के रूप में अथवा अन्य निकायों/संस्थाओं/कंपनियों/बैंक(बैंकों) के साथ सहभागिता करके संयुक्त उद्यम के रूप में पण्य एक्सचेंज का प्रवर्तन करना और ऐसे अन्य सभी कार्य करना जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और/अथवा कार्यान्वित करने तथा इसे चालू करने के लिए प्रासंगिक और सहायक हों।

उपविधि में संशोधन

'स्वामित्व-खाता' क्रय-विक्रय टर्मिनल

- 61क(क) क्रय-विक्रय टर्मिनलों के जरिये 'स्वामित्व खाता' से आर्डर देने की सुविधा सदस्यों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट/अपेक्षित रूप से सदस्यों के किसी एक स्थान पर ही प्रदान की जायेगी।

(ख) उपर्युक्त स्थान से भिन्न स्थानों पर स्थित क्रय-विक्रय टर्मिनलों पर एक्सचेंज/सिद्दी द्वारा यथा अपेक्षित/विनादिष्ट ग्राहक कूट संख्या के विवरण भरकर किसी ग्राहक के लिए और उसकी ओर से आर्डर देने की सुविधा उपलब्ध होगी।

(ग) यदि किसी सदस्य को क्रय-विक्रय टर्मिनलों के जरिये 'स्वामित्व खाता' का उपयोग करने की सुविधा एक से अधिक स्थानों पर चाहिये हो, तो ऐसे सदस्यों को स्टॉक एक्सचेंज को एक वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें 'स्वामित्व खाता' का उपयोग एक से अधिक स्थानों पर करने के कारणों का उल्लेख किया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंज उचित कानूनी बरतने के बाद, प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर एक स्थान से अधिक स्थानों से 'स्वामित्व खाता' की सुविधा का उपयोग करने की अनुमति देने पर विचार कर सकता है।

सुपुर्दगी का तरीका और भुगतान

235क(क) दलालों और उप-दलालों को ग्राहक से नकद राशि स्वीकार नहीं करनी चाहिए, चाहे वह दायित्वों के संबंध से हो या प्रतिभूतियों की खरीद के लिए माधिन के रूप में हो, और/अथवा प्रतिभूतियों की बिक्री के संबंध में ग्राहकों को नकद राशि नहीं देनी चाहिए।

(ख) दलालों द्वारा ग्राहकों से प्राप्त किए जाने वाले/को किए जाने वाले सभी भुगतान अनिवार्य रूप से 'आशुता के खाते में' रेजॉकित बैंकों/डिमांड ड्राफ्टों द्वारा होंगे अथवा ईएफटी के जरिए बैंक खाते में राशि सीधे जमा करके अथवा रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य प्रकार से किए जाएंगे। दलाल अपने जेनरल के लिए केवल ग्राहकों द्वारा आहरित बैंक और ग्राहकों के पक्ष में जारी बैंक हो स्वीकार करेंगे। तथापि अपवादात्मक परिस्थितियों में दलाल अथवा उप-दलाल उत सीमा तक राशि नकद प्राप्त कर सकता है जिसे समय-समय पर लागू आयकर संबंधी अपेक्षाओं का अतिक्रमण न हो।

(ग) इसी प्रकार प्रतिभूतियों के मामले में भी, स्टॉक एक्सचेंज और/अथवा सेवा को अनुमोदित योजना के अंतर्गत किसी मान्यताप्राप्त संस्था को प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी को छोड़कर 'डीमैट मोड' में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी देना/लिना सीधे हितधिकारी के खाते में/से होना चाहिए।

दो बिल्डिंग स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि०

आर० के० अग्रवाल

सहायक कम्पनी सचिव

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ली कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई-400051

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 18 की अपेक्षाओं के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के उप-नियम प्रस्तावित संशोधनों के लिए, जैसा कि नीचे दिए गए हैं, सामान्य धारा अधिनियम, 1897 की धारा 23 के उपबंधों के अनुसार समालोचना के लिए भारत के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। किसी व्यक्ति के उप-नियमों के प्रस्तावित संशोधनों पर यदि कोई प्रेक्षण हों, तो वह उन्हें राजपत्र में इस प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिन के अन्दर लिखित में निदेशक (वित्त और भू-संपदा), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ली कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई-400051 को भेज सकता है। उपरोक्त तारीख के पश्चात प्राप्त प्रेक्षणों पर बसोड़े पर विचार करते समय विचार नहीं किया जाएगा।

1. अध्याय XI के उप-नियम 3 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़े जाने का प्रस्ताव है :

उद्धरण चिन्ह शुरू

स्पष्टीकरण :

(1) ऐसे मामलों जिनमें दावा, अंतर अथवा विवाद की तिथि निश्चय न हो, उनमें दिन-देन की तिथि जिस संबंध में दावा, अंतर अथवा विवाद उठा है, से छह महीने की समाप्ति की तारीख को उठा माना जाएगा।

(2) ऐसे मामलों जिनमें उप-नियमों के अध्याय XI के उप-नियम 1 घ से उठे जाने वाले दावे, अंतर अथवा विवाद की तिथि निश्चय नहीं है, उनमें इसे निम्नानुसार उठा हुआ माना जाएगा।

(क) ऐसे मामलों जिनमें जारीकर्ता घटक को शेयरों के अंतरण को सम्बंधित नहीं करता, उनमें विवाद की तिथि को जारीकर्ता के पास अंतरण के लिए घटक द्वारा शेयरों को प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिन की समाप्ति की तारीख से छह महीने की समाप्ति की तारीख को उठा माना जाएगा, अथवा

(ख) ऐसे मामलों जिनमें जारीकर्ता शेयरों के अंतरण को मना करता है, उनमें विवाद की तिथि को घटक के पक्ष में शेयरों के अंतरण को मना करने हुए जारीकर्ता के सम्प्रेषण को प्राप्त की तारीख से छह महीने की समाप्ति की तारीख को उठा माना जाएगा।

(ग) ऐसे मामलों में जहां निर्धारित अवधि के बाद घटक के शेयरों के अंतरण में जारीकर्ता विलम्ब करता है, वहां जारीकर्ता के साथ अंतरण के लिए घटक द्वारा शेयरों के निपेक्षण की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति की तारीख से छह महीने की समाप्ति की तारीख अथवा घटक के पक्ष में शेयरों के अंतरण की कार्यवाही आरम्भ करने वाले, जारीकर्ता

द्वारा घटक को भेजे गए पत्र की प्राप्ति की तारीख, जो भी जाद में हो, विवादस्पद तारीख समझी जाएगी।

उद्धरण चिह्न बन्द

2. अध्याय X के मौजूदा उप नियम 5(ख) को निम्नानुसार संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है :

“में बन्द कर सकता है” शब्दों और “और किया गया कोई व्यय अथवा कोई हानि” शब्दों के बीच आने वाले “खुले बाजार” शब्दों को “संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट ढंग से” शब्द प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों और विनियमनों में किए जाने वाले प्रस्तावित उन्मुखित संशोधनों से उठे वाले परिणामी संशोधन, यदि कोई हों।

कृते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑफ इण्डिया लिमिटेड
जे० रविन्द्रन,
निदेशक (वित्त और विधि)

टिप्पणी—अगर इस राजात में प्रकाशित अधिसूचनाओं के अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतरों के बीच कोई असंगति है तो अंग्रेजी रूपांतर में विहित उद्देश्य विचारा लें।

दि स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई
(बीएसई)

सिक्यूरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1956 की धारा 10 (4) के प्रावधानों के अनुसार किसी उप नियम का बनाया जाना, उसमें आशोधन करना अथवा उसमें संशोधन करना उसके पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होता है। दि स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई की नियमावली, उप नियमावली तथा विनियमावली के आशोधित उप नियम 249, 250, 262 तथा 274 (A) को अभिमत आमंत्रित करने के लिए 8 नवम्बर 2003 के भारत के आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया गया था।

चूँकि उपर्युक्त मामले पर कोई भी अभिमत प्राप्त नहीं हुआ है, अतएव, अब स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई की नियमावली, उप नियमावली तथा विनियमावली के आशोधित उप नियम 249, 250, 262 तथा 274 (A) को निम्नलिखित रूप में प्रकाशित करता है :

(1) सेबी द्वारा दिनांक 15 सितम्बर 2003 के अपने पत्र सं० एमआरडी/डीएसए/17510/03 के द्वारा यथा अनुमोदित एक्सचेंज की नियमावली, उप नियमावली तथा विनियमावली के उप नियम 249 (i) तथा 249 (ii) का आशोधन

मध्यस्थों की नियुक्ति

249 (i) (a) सभी दावे, मतभेद तथा विवाद जो इन उप नियमों तथा विनियमों के तहत मध्यस्थता के

लिए भेजे जाने की जरूरत है, वे इन उप नियमों तथा विनियमों में प्रावधान किए गए तरीके से, कार्यपालक निदेशक द्वारा नियुक्त एकल मध्यस्थ के पास अथवा तीन मध्यस्थों के पास अथवा गवर्निंग बोर्ड द्वारा गठित मध्यस्थों के पैनल में से पार्टियों द्वारा नियुक्त मध्यस्थों के पास मध्यस्थता के लिए भेजे जाएंगे। कार्यपालक निदेशक एकल मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा।

(b) तीन मध्यस्थों के किसी मध्यस्थता ट्रिब्यूनल में, प्रत्येक पार्टी एक मध्यस्थ की नियुक्ति करेगी और तीसरा मध्यस्थ कार्यपालक निदेशक द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये प्रस्तावित मध्यस्थ गवर्निंग बोर्ड द्वारा गठित मध्यस्थों के पैनल में से होंगे। यदि कोई पार्टी मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए कहे जाने के दस दिन के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने में असमर्थ रहती है तो कार्यपालक निदेशक इन उप नियमों में प्रावधान किए गए तरीके से इस तरह के मध्यस्थों की नियुक्ति करेगा। एकल मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान करने वाले सभी उप नियम तीन मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता के लिए आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे।

(ii) मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के लिए आवेदन करते समय दावेदार उप नियम 262 (b) के अनुसार तैयार किए गए मध्यस्थों के पैनल में से 3 प्रस्तावित मध्यस्थों के नामों का उल्लेख करेगा।

(2) सेबी द्वारा दिनांक 15 सितम्बर 2003 के अपने पत्र सं० एमआरडी/डीएसए/17510/03 के द्वारा यथा अनुमोदित एक्सचेंज की नियमावली, उप नियमावली तथा विनियमावली के उप नियम 250 का आशोधन

कार्यपालक निदेशक द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति

250 (1) दावे, मतभेद अथवा विवाद की किसी पार्टी द्वारा इन उप नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित मध्यस्थता का न्यूनतम शुल्क अग्रिम रूप में अदा कर दिए जाने के बाद कार्यपालक निदेशक मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा यदि :

(a) यदि पार्टियों मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए सहमत न हो पायें।

(b) यदि मध्यस्थ द्वारा पंचाट दिये जाने से पहले मध्यस्थ की मृत्यु हो जाती है, वह मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से मना कर देता है या लापरवाही बरतता है या मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाता है।

(2) खण्ड (1) के अंतर्गत नियुक्त किया जाने वाला मध्यस्थ उप नियम 262 (B) के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड द्वारा तैयार किये गये मध्यस्थों के पैनल में से होगा।

(3) मध्यस्थ नियुक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि मध्यस्थ स्वतंत्र तथा निष्पक्ष है तथा किसी भी पार्टी में अथवा उसके पास मध्यस्थता के लिए भेजे गये दावे, मतभेद अथवा विवाद में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है।

(3) सेबी द्वारा दिनांक 15 सितम्बर 2003 के अपने पत्र सं० एमआरडी/डोएसए/17510/03 के द्वारा यथा अनुमोदित एक्सचेंज की नियमावली, उप नियमावली तथा विनियमावली के उप नियम 262 का आशोधन

मध्यस्थों के पैनल में से मध्यस्थों की नियुक्ति

262 (a) सदस्यों के बीच की मध्यस्थता के अलावा मध्यस्थता के संबंध में इन उप नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत नियुक्त मध्यस्थ, नियम 170(i)(a) के अन्तर्गत मध्यस्थों के पैनल में शामिल बोर्ड द्वारा नामित व्यक्तियों में से होगा।

(b) गवर्निंग बोर्ड समय समय पर नियम 170(i)(a) के अन्तर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार मध्यस्थों के पैनल में ऐसे व्यक्तियों को नामित कर सकता है जिन्हें वह उच्च निवृत्त न्यायाधीशों में से अथवा विधि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, मध्यस्थता, सिक्यूरिटी बाजार अथवा स्टॉक एक्सचेंज के लेन-देनों के क्षेत्र में जानकारी अथवा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से उपयुक्त समझे। गवर्निंग बोर्ड अपने विवेक पर तथा बिना कोई कारण बताये मध्यस्थों के पैनल में से किसी व्यक्ति को हटा भी सकता है। इस तरह के पैनल प्रत्येक वर्ष तैयार किए जाएंगे।

(c) मध्यस्थों के पैनल में नामित किए गए गैर सदस्य जब तक मध्यस्थों के पैनल में बने रहेंगे जब तक उनके स्थान पर नये गैर सदस्य नहीं आ जाते अथवा वे मरचिच्छक रूप से त्याग पत्र नहीं दे देते, इनमें से जो भी होते हों। त्याग पत्र देने की स्थिति में रिक्त स्थान को पैनल पर अथवा गैर सदस्य को नियुक्त करके भरा जाएगा।

(4) सेबी द्वारा दिनांक 15 सितम्बर 2003 के अपने पत्र सं० एमआरडी/डोएसए/17510/03 के द्वारा यथा अनुमोदित एक्सचेंज की नियमावली, उप नियमावली तथा विनियमावली के उप नियम 274A का आशोधन

मध्यस्थता पंचाट के खिलाफ अपील

264A अपील बेंच

1. एक्सचेंज का कार्यपालक निदेशक एक या अधिक अपील बेंचें गठित करेगा और प्रत्येक बेंच में उप

नियम 262(b) के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड द्वारा गठित मध्यस्थों के पैनल में से पांच पांच मध्यस्थ होंगे।

2. मध्यस्थों में से कोई भी, जिसने मामले को सुनी हो या पंचाट दिया हो, उस पंचाट के खिलाफ अपील की सुनवाई में अपील बेंच का सदस्य नहीं होगा।

3. किसी पंचाट से असंतुष्ट पार्टी इस तरह का पंचाट मिलने के पंद्रह दिन के भीतर इस तरह के पंचाट के खिलाफ अपील बेंच में अपील कर सकती है।

4. अपील करने वाली पार्टी अपील दर्ज करने के लिए गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली आवश्यक फीस तथा प्रभार जमा करेगी।

5. मध्यस्थता सचिव निचली बेंच के पंचाट के खिलाफ कोई भी अपील तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक अपीलकर्ता पहले एक्सचेंज में पंचाट की राशि जमा नहीं करा देता। यदि पंचाट की राशि सदस्य द्वारा जमा करा दी जाती है और उसे उप नियम 259(A) में यथा निर्धारित एक अलग खाते में जमा लिख दिया जाता है तो उक्त उप नियम में किए गए प्रावधान के अनुसार नामे को उस सदस्य के खाते में रिवर्स कर दिया जाएगा।

6. राशि जमा करने वाली पार्टी के बारे में यह मान लिया जायेगा कि वह इस बात से सहमत है कि अपील बेंच के निर्णय का तारीख से तीन महीने की समाप्ति पर इस तरह की जमा की गयी राशि एक्सचेंज द्वारा अपील में किए गए निर्णय की शर्तों के अनुसरण में दूसरी पार्टी को सौंप दी जायेगी, उस स्थिति को छोड़कर जब पंचाट के धारक को इस तरह की राशि का भुगतान न्यायालय के आदेश द्वारा रोक न दिया गया हो।

7. जब तक एक्सचेंज यह प्रमाणित न कर दे कि अपेक्षित राशि जमा कर दी गई है, अपील बेंच अपील पर सुनवाई की कार्रवाही नहीं करेगी।

बशर्ते, अलबत्ता, जब ऊपर दिये गए उप नियम 259(A) तथा 274A(5) के प्रावधानों के अनुसरण में सदस्य की राशि एक्सचेंज द्वारा नामे लिख दी जाती है, तो एक्सचेंज न तो इस तरह की नामे राशि की वजह से किसी व्यक्ति के प्रति उत्तरे होने वाली किसी संभावित हानि के लिए उत्तरदायी होगा और न ही किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति को कोई ब्याज अदा करने के लिए बाध्य होगा।

अपील की सुनवाई और निर्णय

सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद मध्यस्थता सचिव प्रतिवादी को नोटिस जारी करेगा। अपील के मेमो की एक प्रति नोटिस के साथ लगायी जायेगी और प्रतिवादी से कहा जायेगा कि वह उसमें दी गई तारीख को अपील बेंच के सामन उपस्थित हो। उस दिन अपील सचिव

सारे कॉगर्जल अपील बेंच के तमाम रखेगा और अपील बेंच उसी दिन ही या किसी और स्थगित दिन पार्टियों को सुनेगी और पंचाट के लिए अपने कारण देते हुए निखित रूप में पंचाट देगी। उनके द्वारा दिया गया पंचाट अंतिम माना जाएगा और वह सभी पार्टियों पर बाध्यकर होगा। अपील बेंच का अधिनिर्णय बहुमत अधिनिर्णय होगा और पंचाट बहुमत निर्णय के अनुसार होगा।

8. पंचाट पर हस्ताक्षर करना

अपील बेंच द्वारा दिया गया पंचाट पर अपील बेंच के सभी सदस्य हस्ताक्षर करेंगे।

9. पंचाट प्रकाशित करना

पंचाट दिए जाने के बाद पंचाट की एक हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पार्टी को सौंपी जाएगी।

10. अपील पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाए

अपील पर अपील बेंच द्वारा यथाशीघ्र तथा जहां तक हो सके, अपील फाइल किए जाने के एक माह के भीतर ही निर्णय लिया जाएगा।

11. मध्यस्थता से संबंधित प्रावधानों को लागू करना

इस अध्याय के अन्य सभी उप नियम, जहां तक वे लागू होते हैं, अपील बेंच के सामने कार्यवाहियों पर तथा अपील बेंच के पंचाट पर आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे अलबत्ता, अपील बेंच के पंचाट से कोई अपील नहीं होगी।

कुते स्टॉक एक्सचेंज मुंबई

बी जी भगत, सचिव

18 दिसम्बर 2003

नोट: उपर्युक्त उप नियमों के हिन्दी तथा अंग्रेजी पाठ में किसी विषमता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ में उल्लिखित प्रावधान प्रमाणिक माने जायेंगे।

Notice

(Pursuant to section 485)

In the matter of AMF Bowling India Pvt. Ltd.

Registered Office : C-13, First Floor, Community Centre, Safdarjung Development Area, New Delhi-110016

Notice is hereby given that the members of AMF Bowling India Private Limited in their Extra-Ordinary General Meeting held on Friday, December 26, 2003 at DLF-PHD Centre, PHD House, Khelegaon Marg, New Delhi-110016 at 4.00 PM have passed the following special resolution to wind up the Company voluntarily :

"RESOLVED THAT, pursuant to the provisions of section 334 (1)(b) of the Companies Act, 1956 consent of the Company be and is hereby accorded to wind up the Company voluntarily.

RESOLVED FURTHER THAT Mr. Ranti Dev Gupta, Director be and is hereby authorised to give notice of this resolution by advertisement in the Official Gazette and also in two newspapers, one in English and one in Hindi circulating in the district in which the registered office of the Company situates and to file the requisite form with the Registrar of Companies, NCT of Delhi and Haryana.

For AMF Bowling India Private Limited

Ranti Dev Gupta
Director

Date : December 26, 2003

Place : New Delhi

Form No. 151

[See Rule 315]

Members' Voluntary Winding-up

Notice of appointment of liquidator pursuant to section 516

Name of the Company	AMF Bowling India Private Limited
Nature of Business	Manufacturing of bowling alley equipment and accessories and articles of billiards
Address of the Registered Office	C-13, First Floor, Community Centre, Safdarjung Development Area, New Delhi-110016
Name and address of Liquidator	Mr. Nesar Ahmad C-88, Paryavaran Complex, New Delhi-110030
Date of Appointment	December 26, 2003
BY whom appointed	Members

I hereby accept the appointment as Liquidator.

Date : December 27, 2003

Place : New Delhi

Signature

Nesar Ahmad

Amendments to the Bye-laws (duly pre-published on Gazette of U.P. on 8-11-2003 and Gazette of India on 18-10-2003) of The Uttar Pradesh Stock Exchange Association Limited, 14/113, Civil Lines, Kanpur-208 001 for information/criticism of the members and other concerned.

Amendments to Bye-laws regarding maintenance of Arbitration Records approved by the Administrator on 27-6-2003 in compliance with SEBI Circular No. SEBI/SMD/SE/13/2003/10/04 dated 10-4-2003 & SEBI directive no. SEBI/MRD/SE/14855/2003/06/08 dated 6-8-2003 (Issued U/S 11(1) of SEBI Act, 1992 read with Section 10 of the SCRA, 1956) and approved by SEBI vide letter no. MRD/DSA/UPSE/16933 dated 8-9-2003.

The following new Bye-law No. 272-A be inserted after existing Bye-law no. 272 of the Bye-laws of the Exchange :—

“272-A. Maintenance of Arbitration Records

- (a) The original arbitration award with acknowledgements shall be preserved permanently.
- (b) Other records pertaining to arbitration shall be preserved for 5 years from the date of award, in case the appeal for setting aside the award is not filed till such time.
- (c) In case, an appeal is filed, the records, shall be preserved for five years from the date of final disposal by the court.
- (d) The destruction of records shall be subject to the previous order, in writing of the Executive Director of the Exchange.
- (e) The Exchange shall maintain a register wherein the brief particulars of the records destroyed shall be entered along with the certification regarding the date and mode of destruction.”

for U. P. Stock Exchange ASSN. LTD.

K. C. PANDEY
Executive Director

**THE DELHI STOCK EXCHANGE
ASSOCIATION LTD.**

Regd Office : DSE House, 3/1, Asaf Ali Road,
New Delhi-110002

Amendment in clause 3 of the Memorandum of Association of The Delhi Stock Exchange Association Ltd. by insertion of sub-clause 2A duly approved by Securities and Exchange Board of

India vide its letter No. MRD/DSA/18754/03 dated 3rd October, 2003 and amendment in the Bye-laws of The Delhi Stock Exchange Association Ltd. by insertion of new Bye-laws No. 61A and 235A duly approved by Securities and Exchange Board of India vide its letter No. MRD/DSA/21128/03 dated 10th November, 2003.

Clause 3 of the Memorandum of Association of the Exchange :

- (2A) “To promote a Commodity Exchange either as a subsidiary or in participation with other Bodies/Institutions/Companies/bank (s) as a joint venture and to do all such other things as are incidental and are conducive to the attainment of this object and/or implement and give effect to this.”

Amendment in the Bye-laws

“Pro-account” trading terminal

- 61A: (a) Facility of placing order on “pro-account” through trading terminals shall be extended only at one location of the members as specified/required by the members.
- (b) Trading terminals located at places other than the above location shall have a facility to place orders only for and on behalf of a client by entering client code details as required/specified by the Exchange/SEBI.
- (c) In case any member requires the facility of using “pro-account” through trading terminals from more than one location, such members shall be required to submit an undertaking to the stock exchange stating the reason for using the “pro-account” at multiple locations and the stock exchange may, on case to case basis after due diligence, consider extending the facility of allowing use of “pro-account” from more than one location.

Mode and payment of delivery

- 235A(a) The Brokers and sub brokers should not accept cash from the client whether against obligations or as margin for purchase of securities and/or give cash against sale of securities to the clients.
- (b) All payments shall be received/made by brokers from/to clients strictly by account payee crossed cheques/demand drafts or by way of direct credit into the Bank

account through EFT, or any other mode allowed by RBI. The brokers shall accept cheques drawn only by the clients and also cheques in favour of the clients only, for their transactions. However, in exceptional circumstances the broker or sub-broker may receive the amount in cash, to the extent not in violation of the Income Tax requirements as may be in force from time to time.

- (c) Similarly in case of securities also giving/taking delivery of securities in "demat mode" should be directly to/from the "beneficiary accounts" of the client except delivery of securities to a recognised entity under the approved scheme of the stock exchange and/or SEBI.

For The Delhi Stock Exchange Association Ltd.

R. K. AGARWAL
Asstt. Company Secretary

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

Regd. Office : Exchange Plaza, C-1, Block G,

Bandra-Kurla Complex,

Bandra (East), Mumbai-400051

As per the requirements of Rule 18 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, the proposed amendments to the Bye-laws of National Stock Exchange, as given hereunder, are published for criticism in accordance with the provisions of Section 23 of the General Clauses Act, 1897 in the Official Gazette of India. Any person having any observations on the proposed amendments to the Bye-laws can send the same in writing to Director (Finance & Legal), National Stock Exchange of India Limited at Exchange Plaza C-1 Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051 within fifteen days from the date of this publication in the Gazette. The observations received after the aforementioned date will not be considered when the draft will be taken for consideration.

1. The following explanation is proposed to be inserted in Bye-law 3 of Chapter XI:

QUOTE

Explanation:—

- (1) In cases where the date of claim, difference or dispute is not ascertainable, it shall be

deemed to have arisen on the date of expiry of six months from the date of the transaction in respect of which the claim, difference or dispute has arisen.

- (2) In cases where the date of claim, difference or dispute arising out of Bye-law 1D of Chapter XI of the Byelaws is not ascertainable, it shall be deemed to have arisen as follows:

- (a) In cases where the Issuer fails to communicate to the Constituent the transfer of shares, the date of dispute shall be deemed to have arisen on the date of expiry of six months from the date of expiry of 30 days from the date of lodgment of shares by the Constituent for transfer with the Issuer, or
- (b) In cases where the Issuer refuses to transfer the shares, the date of dispute shall be deemed to have arisen on the date of expiry of six months from the date of receipt of communication of Issuer refusing to transfer the shares in favour of the Constituent.

- (c) In cases where the Issuer delays the transfer of shares of the Constituent beyond the stipulated period, the date of dispute shall be deemed to have arisen on the date of expiry of six months from the date of expiry of 30 days from the date of lodgment of shares by the Constituent for transfer with the Issuer or the date of receipt of communication of the issuer to the Constituent intimating the transfer of shares in favours of the Constituent, whichever is later.

UNQUOTE

2. The existing Bye-law 5 (b) of chapter X is proposed to be amended as under:

The word "open market" appearing in between the words "he may close-out in the" and the words "and any expense incurred or any loss" are proposed to be substituted with the words "manner specified by the relevant authority".

Consequential amendments, if any, arising out of the above suggested amendments are proposed to be made to Bye-laws, Rules, and Regulations of the Exchange.

For National Stock Exchange of India Limited

J. RAVICHANDRAN
Director (Finance & Legal)

THE STOCK EXCHANGE, MUMBAI (BSE)

Whereas pursuant to the provisions of Section 10(4) of the Securities Contract (Regulation) Act, 1956, the making or the amendment or revision of any bye-law is subject to the condition of previous publication, the amended Bye-laws 249, 250, 262 and 274A of the Rules and Bye-laws of The Stock Exchange, Mumbai was published in the Official Gazette of India dated the 8th November, 2003, inviting comments thereon.

Since no comments on the abovementioned matter had been received, The Stock Exchange, Mumbai, now therefore hereto publishes the amended Bye-laws 249, 250, 262 and 274A of the Rules and Bye-laws of The Stock Exchange, Mumbai as follows :

(1) AMENDMENT OF BYE-LAW 249(i) AND 249(ii) OF THE RULES, BYE-LAWS & REGULATIONS OF THE EXCHANGE APPROVED BY SEBI VIDE ITS LETTER NO. MRD/DSA/17510/03 DATED THE 15TH SEPTEMBER, 2003.

Appointment of Arbitrators

249 (i) (a) All claims, differences and disputes which are required to be referred to arbitration under these Bye-laws and Regulation shall be referred to arbitration of a sole arbitrator or of three arbitrators to be appointed by the Executive Director or by the parties from the Panel of Arbitrators constituted by the Governing Board, in the manner provided in these Bye-laws and Regulations. The Executive Director shall appoint a sole arbitrator.

(b) In an arbitral tribunal of three arbitrators, each party shall appoint one arbitrator and the third Arbitrator will be appointed by Executive Director. These proposed arbitrators shall be from the panel of arbitrators constituted by the Governing Board. If any of the parties fail to appoint arbitrator within 10 days of the day he is asked to appoint arbitrator the Executive Director shall appoint such arbitrators in the manner provided in these Bye-laws. All the Bye-laws providing arbitration by a single arbitrator shall apply mutatis-mutandis to arbitration by three members.

(ii) While making an application for reference to arbitration, the claimant shall state the names of 3 proposed arbitrators from

amongst the panel of arbitrators prepared as per Bye-law 262 (b)

(2) AMENDMENT OF BYE-LAW 250 OF THE RULES, BYE-LAWS & REGULATIONS OF THE EXCHANGE APPROVED BY SEBI VIDE ITS LETTER NO. MRD/DSA/17510/03 DATED THE 15TH SEPTEMBER, 2003.

Appointment of Arbitrator by the Executive Director

250. (1) On payment in advance of the minimum fees of an arbitrator prescribed under these Bye-laws and Regulations by any party to a claim, difference or dispute, the Executive Director shall appoint an arbitrator ;

(a) if the parties have failed to agree as to the person to be appointed as the arbitrator.

(b) if the arbitrator dies or fails, refuses or neglects to act or becomes incapable of acting as an arbitrator before an award is made by him.

(2) An arbitrator to be appointed under clause (1) shall be from the panel of arbitrators prepared by the Governing Board as per bye-law 262 (b) .

(3) While appointing arbitrator it shall be ensured that the arbitrator is independent and impartial not interested in any of the parties or the claim dispute or difference referred to in arbitration.

(3) AMENDMENT OF BYE-LAW 262 OF THE RULES, BYE-LAWS & REGULATIONS OF THE EXCHANGE APPROVED BY SEBI VIDE ITS LETTER NO. MRD/DSA/17510/03 DATED THE 15TH SEPTEMBER, 2003

Appointment of Arbitrators from Panel of Arbitrators

262 (a) The arbitrator appointed under these Bye-laws and Regulations in respect of an arbitration other than between members shall be from amongst persons nominated by the Governing Board to the panel of Arbitrators under Rule 170 (i) (a).

(b) The Governing Board may from time to time nominate to the panel of arbitrators as provided under Rule 170(i)(a) such persons as it think suitable from amongst retired judges or other persons having knowledge or experience in the field of law, trade, commerce, industry,

arbitration, securities market or stock exchange transactions. The Governing Board may also at its discretion and without assigning any reason remove a person from the panel of arbitrators. Such panel shall be reconstituted every year."

(c) The non-members nominated on the panel of arbitrators shall continue on the panel of arbitrators till they are replaced by the new non-members or they voluntarily resign, whichever event takes place earlier. In case of resignation, the vacancy shall be filled by appointing another eligible non-member on the panel.

(4) AMENDMENT OF BYE-LAW 274A OF THE RULES, BYE-LAWS & REGULATIONS OF THE EXCHANGE APPROVED BY SEBI VIDE ITS LETTER NO. MRD/DSA/17510/03 DATED THE 15TH SEPTEMBER, 2003.

Appeal against Arbitral Award

274A. Appeal Bench :

1. The Executive Director of the Exchange shall constitute one or more Appeal Benches, each comprising of five arbitrators from the panel of arbitrators constituted by the Governing Board under Bye-law 262 (b).

2. None of the arbitrators who have heard the reference or passed the award shall be a member of the Appeal Bench hearing an appeal against that award.

3. A party dissatisfied with an Award may appeal to the Appeal Bench against such Award within 15 days of the receipt of such award.

4. The party appealing shall pay the necessary fees and charges for preferring the appeal as may be fixed by the Governing Board from time to time.

5. No appeal shall be entertained by the Arbitration Secretary against an award of the Lower Bench, unless the appellant has first deposited the amount awarded with the Exchange. If the amount awarded is deposited by the member and the same is credited in a separate account as contemplated under Bye-law 259(A), the debit made to the account of the member as provided in the said Bye-law shall be reversed.

6. The party placing the deposit shall be deemed to have agreed that on expiry of 3 months from the date of the decision of the Appeal Bench, the amount of such deposit may be handed over by the Exchange to the other party in accordance with the terms of decision in appeal unless the payment of such amount to the award holder is stayed by an order of the Court.

7. The Appeal Bench shall not proceed to hear the appeal unless the Exchange has certified that the required deposit has been made.

Provided however that when the account of the member has been debited by the Exchange in accordance with the provisions of Bye-law 259A and 274A(5) above, the Exchange shall neither be liable to any person for any purported loss occurring to them as a result of such debit as aforesaid nor shall be liable to pay any interest to anyone for any reason whatsoever.

Hearing and decision of Appeal

The Arbitration Secretary after all the formalities are complete shall issue notice to the respondent. A copy of the memo of Appeal shall accompany the notice and respondent shall be called upon to appear before the Appeal Bench on the date specified therein. On that day the Secretary shall place all papers before the Appeal Bench and the Appeal Bench shall on the same day or on some adjourned date hear the parties and shall make the award in writing giving their reasons for the award. The Award made by them shall be deemed to be final and binding on the parties. The judgement of the Appeal Bench shall be a majority judgement and the award shall be as per majority decision.

8. Signing of the Award

The Award made by the Appeal Bench shall be signed by all members of the Appeal Bench.

9. Publication of the Award

After the award is made, a signed copy of the award shall be delivered to each party.

10. The Appeal to be decided expeditiously

The Appeal shall be decided by the Appeal Bench expeditiously and as far as possible, within one month of the filing of the Appeal.

11. Application of provisions relating to arbitrations

All the other Bye-laws of this chapter as far as may be applicable shall apply mutatis mutandis to the proceedings before the Appeal Bench and the award of the Appeal Bench. However, there shall be no appeal from the award of the Appeal Bench.

For The Stock Exchange, Mumbai
V. G. BHAGAT, Secretary

PUBLIC NOTICE**U/S 485 OF THE COMPANIES ACT****IN THE CASE OF****M/S. C. B. FLOOREX CONSULTANTS (P) LTD****5/104, LOCAL SHOPPING CENTRE,****MADANGIR, NEW DELHI-62**

Notice is hereby given that the Shareholders of M/s. C.B. Floorex Consultants (P) Ltd. at its Extra General Meeting held on 23rd December 2003 at 5/104, Local Shopping Centre, Madangir, New Delhi-62 have passed the following Resolution as a Special Resolution for the winding up of the Company as Members Voluntary Winding-up.

“RESOLVED THAT pursuant to section 484(1)(b) and all other applicable provisions of the Companies Act 1956, the Company be wound up voluntarily, and that Sh. Dalip Vanjani, Chartered Accountant, 5/B-4, DDA Shopping Complex, Pushp Vihar (Madangir) New Delhi-62, be appointed a Liquidator with all the powers u/s 512 read with section 457 of the Companies Act 1956, for the purpose of such winding-up and that the remuneration of the said Sh. Dalip Vanjani, Chartered Accountant be fixed at a sum of Rs. 5,000/- in additions to his cost, charges and expenses.”

Place : New Delhi

Date : 24-12-03

VIJAY KUMAR,
Director

FORM No. 151

(See Rule 315)

COMPANIES ACT, 1956**Members' Voluntary Winding-up**

Notice of appointment of liquidator pursuant to sec. 516

Name of the Company : M/s. C. B. Floore Consultants (P) Ltd.

Name of business : Consultant of Foreign Buyers for Carpets

Address of Regd Office : 5/104, Local Shopping Centre, Madangir, New Delhi-62.

Name and address of Liquidator : Dalip Vanjani, Chartered Accountant, 5/B-4, DDA Shopping Complex, Pushp Vihar (Madangir), New Delhi-62.

Date of appointment : 23-12-2003.

By whom appointed : Shareholders

Place : New Delhi

Date : 24-12-03

DALIP VANJANI,
Liquidator

RAJ K. KAPOOR & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Office : 101, VARDHMAN CRYSTAL PLAZA
CD BLOCK, MAIN ROAD, PITAMPURA,
DELHI-110034

TEL : 27312654, 27566697, 27568738, 23752052

e-mail : rkk01 @ rediffmail. com

FORM NO. 151

[See Rule 315]

COMPANIES ACT, 1956**Members' Voluntary Winding-up**

Notice of appointment of liquidator pursuant to section 516

Name of Company : Oracle Travels Pvt. Ltd.
(Company No. 49596)

Name of business : To act as travel agents.

Address of Registered Office : 42-B, 4th Floor, Himalaya House, 23, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001,

Name and address of Liquidator : Raj Kumar Kapoor, 101, Vardhman Crystal Plaza, CD Block, Main Road, Pitampura, Delhi-110034.

Date of appointment : 20-12-2003

By whom appointed: Shareholders

Date : 22-12-2003

RAJ KUMAR KAPOOR
Liquidator

FORM NO. 151

[See Rule 315]

COMPANIES ACT, 1956

Members' Voluntary Winding-up

Notice of appointment of liquidator pursuant to section 516

Name of Company : Empire Entertainment Pvt. Ltd. (Company No. 81865)

Name of business : Entertainment

Address of Registered Office : B-157, Shivalik, New Delhi-110017

Name and address of Liquidator : Raj Kumar Kapoor, 101, Vardhman Crystal Plaza, CD Block, Main Road, Pitampura, Delhi-110034.

Date of appointment : 20-12-2003

By whom appointed: Shareholders

Date : 22-12-2003

RAJ KUMAR KAPOOR
LiquidatorPublic Notice U/s 485 of the Companies Act
In the case of

M/s. ORACLE TRAVELS PRIVATE LIMITED

42-B, 4th Floor, Himalaya House, 23, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 601

Notice is hereby given that the members of M/s. Oracle Travels Private Limited at its Extra Ordinary General Meeting held on 20-12-2003 held at 4th Floor, Himalaya House, 23 K. G. Marg, New Delhi-110001, have passed the following Resolution as a Special Resolution under section 484 of the Companies Act, 1956 for the Winding-up of the company as member's voluntary Winding-up.

"Resolved that pursuant to section 484(1)(b) and all other applicable provisions of the Companies Act, 1956, the Company be wound-up

voluntarily, and that Shri R. K. Kapoor, Chartered Accountant, 101, Vardhman Crystal Plaza, CD Block, Pitampura, Delhi-34, be appointed a liquidator with all the powers under section 512 read with section 457 of the Companies Act, 1956, for the purpose of such winding-up and that the remuneration of the said Shri R. K. Kapoor, Chartered Accountant be fixed at a sum of Rs. 5ths. in addition to his costs, charges and expenses."

A. K. JAIN
Director

Date : 22-12-2003

Place : New Delhi.

Public Notice U/s 485 of the Companies Act
In the Case of

M/s. EMPIRE ENTERTAINMENT PVT. LTD.

B-157, Shivalik, New Delhi-110017

Notice is hereby given that the members of M/s. Empire Entertainment Private Limited at its Extra Ordinary General Meeting held on 20-12-2003 held at B-157, Shivalik, New Delhi, have passed the following Resolution as a Special Resolution under Section 484 of the Companies Act, 1956 for the Winding-up of the company as members' voluntary winding-up.

"Resolved that pursuant to section 484(1)(b) and all other applicable provisions of the Companies Act, 1956, the Company be wound-up voluntarily, and that Shri R. K. Kapoor, Chartered Accountant, 101, Vardhman Crystal Plaza, CD Block, Pitampura, Delhi-34, be appointed a liquidator with all the powers under section 512 read with section 457 of the Companies Act, 1956, for the purpose of such winding-up and that the remuneration of the said Shri R. K. Kapoor, Chartered Accountant be fixed at a sum of Rs. 15 ths. in addition to his costs, charges and expenses."

Date : 22-12-2003

Place : New Delhi

BHUVAN LALL
Director

VIMTA**ROSTEST (P) LTD.**

A Joint Venture of VIMTA LABS LTD. and

ROSTEST-MOSCOW**FORM NO. 155****Member's Voluntary Winding Up**Name of the Company : Vimta Rostest (P) Ltd.
(in liquidation)**Notice convening final meeting**

NOTICE is hereby given in pursuance of Section 497 of the Companies Act, 1956 that a General Meeting of the members of above named company will be held at its registered office at Plot No. 141/2 & 142, IDA, Phase II, Cherlapally, Hyderabad :

500051 on Monday, the 19th day of January, 2004 at 10.00 A.M. for the purpose of having an account laid before them showing the manner in which the winding-up has been conducted and the property of the Company disposed of and of hearing any explanation that may be given by the liquidator and also of determining by a special resolution of the Company the manner in which the books, accounts and documents of the company and of the liquidator shall be disposed of.

Sd/-

Date : 15-12-2003

DR S P VASIREDDI

Place : Hyderabad

Liquidator

VIMTA ROSTEST PRIVATE LIMITED
(In Voluntary Liquidation)